



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 श्रावण 1941 (श10)

(सं0 पटना 875) पटना, सोमवार, 29 जुलाई 2019

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

25 जुलाई 2019

सं० 9/सै0-6-मेला बैठक-03/12-668(9)/रा0—दिनांक 04.07.2012 को बिहार राज्य मेला प्राधिकार की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार राज्य मेला प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना सं०-474(9), दिनांक-14.09.2012 के द्वारा सोनपुर मेला जिला-सारण को पांच वर्षों के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं अधिसूचना संख्या-386 (9) दिनांक-19.06.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 तक की अवधि के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रण से मुक्त करते हुए पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किया गया।

चूँकि उक्त हस्तान्तरण अवधि दिनांक-31.03.2019 को समाप्त हो गया, जिसके कारण सोनपुर मेला को पुनः वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किया जाता है। उपर्युक्त मेला को निःशुल्क हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

2. उपर्युक्त हस्तान्तरित अवधि के दौरान सोनपुर मेला प्रबंधन में होने वाले सम्पूर्ण व्यय-भार का वहन पर्यटन विभाग, बिहार के द्वारा किया जाएगा। हस्तान्तरित अवधि के दौरान सोनपुर मेला सैरात की बन्दोबस्ती स्थगित रहेगी।

3. उपर्युक्त हस्तान्तरण वित्तीय वर्ष 2019-20 में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 875-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>